

### प्रेस विज्ञप्ति

मिशन शक्ति अभियान (चौथे दिन) के दौरान जनपद के कई विद्यालयों में जिला पुलिस द्वारा #मिशनशक्ति के तहत बालिकायो को लैंगिक समानता, लैंगिक हिंसा की रोकथाम, पीड़ित को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाना, आदि के बारे में किया

### गया प्रशिक्षण

आज दिनांक 20.10.2020 को मिशन शक्ति अभियान (चौथे दिन) के दौरान विभिन्न विद्यालयों, कालेजों तथा सार्वजनिक स्थलों पर मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बालिकाओं/महिलाओं को लैंगिक समानता, हिंसा से रोकथाम और पीड़ित को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने पर कार्यशाला हुई इसमें विभिन्न विद्यालयों की अध्यापिका/ छात्राएं तथा महिलाएं भी शामिल रही। इनको मिशन शक्ति कि अभियान के उद्देश्य/कार्यों के प्रति बताया गया। विभिन्न अध्यापिका व छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, हिंसा से रोकथाम, महिला आत्मरक्षा आदि के सम्बन्ध में बताया गया। इसके साथ महिला सहायता हेल्पलाइन 1090, 112, 1098 व 1078 के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी गई तथा शपथ दिलाई गयी कि कोई भी महिला ना तो हिंसा सहेंगी ना किसी महिला के प्रति हो रहे हिंसा को सहने देगी, हिंसा का डटकर मुकाबला करेगी। कार्यक्रम में उपस्थित महिला समूह को पुलिस विभाग की महिला हेल्प डेस्क और एंटी रोमियो स्कीमों कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। मिशन शक्ति कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एलईडी वाहनो के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

इसी क्रम में थानों पर बने महिला हेल्प डेक्स के बारे में महिलाओं/बालिकाओं को विस्तृत जानकारी दी गयी।